



कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- फेड ओपन मार्केट कमिटी ने दो महीने में दूसरी बार अपने बेंचमार्क ब्याज दर को सर्वसम्मति से 75 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ा दिया।
- विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 2021 की समान अवधि की तुलना में 8% घटकर 948 टन रह गई।
- इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक तांबा बाजार मई में 5,000 टन का सरप्लस हो गया, जबकि एक महीने पहले 23,000 टन की कमी थी। 2022 के पहले पांच महीनों के दौरान, 2021 की समान अवधि में 23,000 टन की कमी के मुकाबले 43,000 टन का सरप्लस हो गया है।
- जून तिमाही में भारत में सोने की मांग 43 प्रतिशत बढ़कर 171 टन हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 120 टन थी।
- वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत में कच्चे तेल का आयात 17% बढ़कर 60.2 मिलियन टन हो गया। इस अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी 7.2% बढ़ा।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए अपने वैश्विक विकास अनुमानों को अप्रैल में घोषित 3.6% से घटाकर 3.2% और 2023 के लिए अप्रैल में घोषित 3.6% से 2023 के लिए 2.9% कर दिया।
- चीन से भारत का आयात पिछले 5 वर्षों में 30% बढ़ा है।
- भारत में बिजली की कमी अप्रैल में 2% से घटकर जून में 0.6% हो गई।
- अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में इस साल की पहली तिमाही में 1.6 फीसदी की गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में 0.9 फीसदी की कमी हुई है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.07.22	28.07.22	बदलाव (%)
बाजरा	2,074.00	2,107.00	1.59%
कॉटनऑयलसीडकेके	2,666.00	2,706.00	1.50%
कॉटन 29 एमएम	41,390.00	41,660.00	0.65%
हल्दी	7,706.00	7,756.00	0.65%
कपास न्यू	2,096.00	2,107.50	0.55%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.07.22	28.07.22	बदलाव (%)
धान बासमती	4,668.00	4,438.00	-4.93%
धनिया	12,002.00	11,780.00	-1.85%
सीसेम सीड	13,100.00	12,940.00	-1.22%
ग्वारगम	9,342.00	9,268.00	-0.79%
स्टील लांग	52,980.00	52,570.00	-0.77%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.07.22	28.07.22	बदलाव (%)
चांदी	55131.00	57619.00	4.51%
जिंक	277.55	284.85	2.63%
तांबा	627.00	638.55	1.84%
निकल	1920.00	1950.80	1.60%
सोना गिनी	40561.00	41121.00	1.38%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	22.07.22	28.07.22	बदलाव (%)
रबर	17400.00	17100.00	-1.72%
लेड	179.30	176.95	-1.31%
एल्युमीनियम	211.45	210.90	-0.26%

साप्ताहिक समीक्षा

फेड बैठक, जिसमें ब्याज दर में कम से कम 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद थी, के कारण पिछला सप्ताह तनाव से भरा था। उम्मीद के मुताबिक फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने लगातार दूसरे महीने ब्याज दरों में 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा जून-जुलाई में दरों में कुल बढ़ोतरी 150 बेसिस प्वाइंट की हो गई है- जो 1980 के दशक की शुरुआत में पॉल वॉल्कर के मूल्य-संघर्ष युग के बाद से सबसे तेज वृद्धि है। येन के मुकाबले डॉलर तीन सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया क्योंकि अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के बीच फेड चेयरमैन पॉवेल का बयान उत्साहजनक नहीं था। इसने कमोडिटीज में खरीदारी को प्रोत्साहित किया। दो साल की ट्रेजरी यील्ड, जो विशेष रूप से नीतिगत अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील है, इस सप्ताह अपने निम्नतम स्तर 2.9979% के करीब आ गई। ऊर्जा और बेस मेटल सहित जोखिमपूर्ण एसेट में खरीददारी की वापसी हुई। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई जबकि रूस से आपूर्ति की कमी के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी आई। यूरोपीय गैस की कीमतों में दो दिनों के अंतराल में 30% की वृद्धि हुई है, जब रूस ने यूरोपीय महाद्वीप में गैस वितरण को पहले से ही कम स्तरों से आधे से कम करने की धमकी दी। यूरोपीय बेंचमार्क थोक गैस मूल्य टीटीएफ मंगलवार को 20% उछलकर 210 यूरो/मेगावाट घंटा से अधिक हो गया, जो 2010-20 के दौरान के औसत से 10 गुना अधिक वृद्धि है। बाद में इसमें मुनाफावसूली देखी गई और यह साप्ताहिक स्तर पर गिरावट के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल के कम भंडार के बीच निवेशकों में जोखिम लेने की क्षमता में बढ़ोतरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में गैसोलीन की मांग में उछाल के कारण तेल की कीमतों में तेजी जारी रही है सात सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा दिसंबर तक रूसी तेल निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लक्ष्य से भी तेल की कीमतों को मदद मिली। बेस मेटल की कीमतों में निचले स्तर से मामूली बढ़त दर्ज की गई। वर्ष की शुरुआत में कोविड-19 लॉकडाउन द्वारा कारखाने की गतिविधि को प्रतिबंधित करने के बाद चीन में मांग फिर से बढ़ रही है। जून में औद्योगिक फर्मों के मुनाफे में वृद्धि हुई और सरकार ने संपत्ति क्षेत्र में ऋण संकट से निपटने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और समर्थन का वादा किया है। भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणियों से डॉलर के कमजोर होने और ट्रेजरी की यील्ड कम होने से सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई और कमजोर अमेरिकी जीडीपी आंकड़ों के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की खरीदारी को बढ़ावा मिला।

कृषि कमोडिटीज में, कई कृषि कमोडिटीज में खरीदारी हुई, जबकि ग्वार काउंटर पर एक दाघरे में कारोबार हुआ। मसालों में जीरा की कीमतों की तेजी पर रोक देखने को मिली। धनिया की कीमतों में गिरावट हुई क्योंकि प्रोसेसर और व्यापारी अधिक बाजार की कीमतों के कारण इस सीजन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीद रहे हैं। देश में अत्यधिक बारिश के कारण खड़ी फसल को नुकसान होने की खबरों के बाद कपड़ा उद्योगों की ओर से कुछ मांग की खबरों से कॉटन में जोरदार तेजी देखी गई। अच्छी निर्यात मांग और कम कैरी-ओवर स्टॉक के कारण अरंडी की कीमतों में वृद्धि हुई। राजस्थान में सामान्य मानसून और बेहतर उत्पादन क्षेत्र के कारण ग्वार काउंटर दबाव में था। 27 जुलाई तक राजस्थान में ग्वारसीड का उत्पादन क्षेत्र पिछले वर्ष के 11.88 लाख हेक्टेयर की तुलना में 120% बढ़कर 26.17 लाख हेक्टेयर हो गया है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	21.07.22	28.07.22	(%)
जौ	जयपुर	3,140.85	3,110.00	-0.98
चना	दिल्ली	4,962.60	4,947.00	-0.31
धनिया	कोटा	12,254.65	11,987.50	-2.18
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,101.25	1,127.15	2.35
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,249.55	1,253.30	0.30
ग्वारसीड	जोधपुर	5,199.25	5,137.45	-1.19
ग्वारगम	जोधपुर	9,591.75	9,399.95	-2.00
जीरा	ऊंझा	23,464.55	23,527.30	0.27
सरसों	जयपुर	6,851.30	6,837.25	-0.21
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,240.00	1,245.00	0.40
सोयाबीन	इंदौर	6,224.15	6,403.60	2.88
हल्दी	निजामाबाद	8,018.00	7,945.85	-0.90
गेहूं	दिल्ली	2,350.00	2,432.75	3.52
कॉटन	कड़ी	42,189.25	42,547.80	0.85
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,817.65	2,833.30	0.56

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	22.07.22	28.07.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2,475.50	2,456.00	-0.79
तांबा	LME	नकद	7,452.50	7,762.00	4.15
लेड	LME	नकद	2,017.50	1,997.00	-1.02
निकल	LME	नकद	22,122.00	21,935.00	-0.85
जिंक	LME	नकद	2,992.50	3,160.00	5.60
सोना	COMEX	अक्टूबर	1,727.40	1,754.40	1.56
चांदी	COMEX	सितम्बर	18.62	19.87	6.71
लाइट कूड	NYMEX	सितम्बर	94.70	96.42	1.82
नेचुरल गैस	NYMEX	सितम्बर	8.30	8.130	-2.05

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	22.07.22	28.07.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	अगस्त	14.34	16.09	12.20
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	60.32	65.84	9.15
कॉटन	ICE	अक्टूबर	99.43	102.37	2.96
सीपीओ	BMD	अक्टूबर	3,727.00	4,030.00	8.13

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	14.07.22 क्वांटिटी	22.07.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	30	30	0
जौ	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	39,747	36,853	-2894
धनिया	मी.टन	10,182	10,233	51
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	28,208	24,669	-3539
ग्वारगम	मी.टन	14,417	13,268	-1149
ग्वारसीड	मी.टन	21,439	20,416	-1023
जीरा	मी.टन	5,437	5,253	-184
मक्का	मी.टन	-	-	0
सोयाबीन	मी.टन	144	144	0
हल्दी	मी.टन	3,397	-	-3397

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	21.07.22 क्वांटिटी	22.07.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	2,135.70	3,456.79	1321
तांबा	मी.टन	2,303,094.00	3,675,358.00	1372264
सोना	किग्रा	416.00	416.00	0
सोना गिनी	किग्रा	14,096.00	13,920.00	-176
सोना मिनी	किग्रा	96,400.00	39,500.00	-56900
लेड	किग्रा	405.52	740.21	335
निकल	किग्रा	-	-	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	56,983.30	102,676.41	45693
जिंक	मी.टन	104.94	1,496.64	1392

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 22.07.22	स्टॉक की स्थिति 28.07.22	अंतर
एल्युमीनियम	317,275	299,700	-17,575
तांबा	133,550	132,500	-1,050
निकल	60,984	58,320	-2,664
लेड	39,175	39,150	-25
जिंक	72,825	71,825	-1,000



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अगस्त	23735.00	11.05.22	तेजी	21200.00	23330.00	-	23300.00
NCDEX	हल्दी	अगस्त	7756.00	19.07.22	तेजी	7700.00	7600.00	-	7550.00
NCDEX	ग्वारसीड	अगस्त	5102.00	30.05.22	मंदी	6000.00	-	5270.00	5300.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अगस्त	7304.00	14.07.22	तेजी	7270.00	7140.00	-	7100.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अगस्त	2706.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	2770.00	2800.00
MCX	कॉटन	अगस्त	45490.00	14.07.22	मंदी	41350.00	-	46150.00	46200.00
MCX	मंथा ऑयल	अगस्त	1016.70	23.05.22	मंदी	1080.00	-	1045.00	1050.00
MCX	बुलडेक्स	अगस्त	14240.00	28.07.22	तेजी	14000.00	13950.00	-	13900.00
MCX	चांदी	सितम्बर	57619.00	28.07.22	तेजी	56000.00	55350.00	-	55300.00
MCX	सोना	अक्टूबर	51304.00	28.07.22	तेजी	51000.00	50500.00	-	50450.00
MCX	मेटलडेक्स	अगस्त	16864.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	16200.00	17200.00	-
MCX	तांबा	अगस्त	644.65	27.07.22	तेजी	770.00	614.00	-	610.00
MCX	लेड	अगस्त	176.45	25.04.22	मंदी	187.00	-	181.50	182.00
MCX	जिंक	अगस्त	285.80	27.07.22	तेजी	275.00	277.00	-	275.00
MCX	एल्युमिनियम	अगस्त	213.50	27.07.22	तेजी	208.00	206.00	-	205.00
MCX	कच्चा तेल	अगस्त	7716.00	23.06.22	मंदी	8222.00	-	8070.00	8100.00
MCX	नेचुरल गैस	अगस्त	653.90	15.07.22	तेजी	520.00	595.00	-	590.00

*28/07/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

सोना (अक्टूबर) एमसीएक्स



सोना (अक्टूबर) एमसीएक्स

एमसीएक्स में सोना (अक्टूबर) कॉन्ट्रैक्ट 28 जुलाई 2022 को 51443.00 रु पर बंद हुआ। 05 जुलाई 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 52650.00 रु के उच्च स्तर पर था। 21 जुलाई 2022 को 49795.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 57.241 है। 50500.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 52100.00 रु के टारगेट के लिए 50900.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

हल्दी (अगस्त) एनसीडीईएक्स



हल्दी (अगस्त) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में हल्दी(अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 28 जुलाई 2022 को 7756.00 रु पर बंद हुआ। 05 जुलाई 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 8388.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 22 जुलाई 2022 को 7552.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 43.017 है। 7500.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 8150.00 रु के टारगेट के लिए 7700.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

तांबा (अगस्त) एमसीएक्स



तांबा (अगस्त) एमसीएक्स

एमसीएक्स में तांबा(अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 28 जुलाई 2022 को 644.65 रु पर बंद हुआ। 22 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 730.50 रु के उच्च स्तर पर था। 15 जुलाई 2022को 602.15 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 41.143 है। 628.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 665.00 रु के टारगेट के लिए 640.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

बेहतर निर्यात और घरेलू मांग के कारण हल्दी (अगस्त) की कीमतों के 7550-8050 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। पिछले हफ्ते कीमतों में बढ़त दर्ज की गई लेकिन उच्च स्तर पर बिकवाली के दबाव और बेहतर बुवाई की रिपोर्ट के कारण कीमतें 7900 के स्तर के रेजिस्टेंस को पार करने में सक्षम नहीं हो सकी। कीमतों को 7600 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है। पर्याप्त स्टॉक और अच्छी बुवाई रिपोर्ट के कारण हल्दी की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। वहीं, हाजिर बाजार में हल्दी की मांग सुस्त है। पिछले साल किसानों को अधिक कीमत मिलने के कारण इस मौसम में दक्षिण भारत में अच्छी बुवाई की खबर है। वर्तमान में, निजामाबाद में, लगभग 90% से 95% बुवाई पूरी हो चुकी है। वारंगल और आसपास के हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण बुवाई में 10 से 15 दिनों की देरी हुई है। अगस्त 2022 के अंत के बाद कुल बुवाई प्रतिशत साफ हो जाएगा। लेकिन मराठवाड़ा क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण लगभग 8% से 10% फसल क्षति की सूचना मिली है।

जीरा वायदा (अगस्त) की कीमतें पिछले सप्ताह अब तक के उच्च स्तर से नीचे लुढ़क गईं और लगातार पांचवें सप्ताह की बढ़त के बाद मुनाफावसूली के कारण गिरावट के साथ बंद हुईं। लेकिन रूझान तेजी का है क्योंकि मंडियों में कम आवक और किसानों एवं स्टॉकिस्टों द्वारा स्टॉक रोक कर रखने से जीरा की कम आपूर्ति के कीमतों को मदद मिल रही है। सपोर्ट 22800 के स्तर पर है जबकि रेजिस्टेंस 24500 के स्तर पर है। वर्तमान में, कम उत्पादन अनुमान और व्यापारियों के पास कम स्टॉक पर कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 80% अधिक हैं। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, कम बुवाई के कारण बाजार वर्ष 2022-23 (अप्रैल-मार्च) में भारत में जीरा उत्पादन लगभग 33% कम होकर 3 लाख टन होने की उम्मीद है।

अधिक आवक और कम मांग के कारण धनिया वायदा (अगस्त) की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट हुई है। अब कीमतें 11300-12500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार भौतिक बाजारों में मांग में कमी देखी गई क्योंकि बड़े खरीदारों को उच्च स्तर पर अपनी खरीद जारी रखने के लिए अनिच्छुक देखा गया। बाजार सूत्रों के मुताबिक, आयातित धनिया का स्टॉक अब कम है और घरेलू धनिया की कीमतों में तेजी आई है। नए सीजन की शुरुआत के बाद से, अनुमान से कम उत्पादन के कारण धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। वर्तमान में कीमतें कम निर्यात के बावजूद कीमतें वर्ष-दर-वर्ष लगभग 80% अधिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2022 में धनिया का निर्यात मई 2021 के 4000 टन की तुलना में 4.7% कम होकर 3800 टन रह गया है जबकि जनवरी-मई के दौरान निर्यात पिछले साल के 23,750 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 20.4% घटकर 18,900 टन रह गया।

अन्य कमोडिटीज

घरेलू कटाई मिलों की ओर से खरीददारी बढ़ने के बीच आपूर्ति में कमी की चिंताओं के बरकरार रहने से एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों में तेजी का रूझान बरकरार है। इसके अलावा मध्य भारत और गुजरात में अधिक वर्षा के कारण फसल के नुकसान की खबरों से भी कीमतों को मदद मिल रही है। वैश्विक संकेतों से समर्थन मिल रहा है क्योंकि अमेरिका के कपास उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के गहराने से आईसीई में कॉटन वायदा कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। एमसीएक्स में कॉटन वायदा की कीमतें पिछले तीन हफ्तों में लगभग 11% की बढ़त के साथ शुरुआत को 44750 पर पहुंच गईं। सीमित आपूर्ति के कारण इस सप्ताह में भी कीमतों को मदद मिलेगी लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में मौसम विभाग द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम की शुष्क स्थिति के पूर्वानुमान के कारण बढ़त सीमित रहेगी, जिससे मौजूदा बुवाई गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कॉटन की कीमतें 44200-47000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

कपास की फसल को नुकसान होने की खबरों से कॉटनऑयलसीड के अगस्त डिलीवरी के लिए वायदा की कीमतों में लगातार तीसरी साप्ताहिक बढ़त देखी गई। जुलाई के पहले सप्ताह में 2443 के निचले स्तर से कीमतों में 15% की वृद्धि हुई है। लेकिन मौजूदा स्तर पर सीमित खरीदारी से कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है क्योंकि सरसोमिल के साथ कीमतों में कमी के कारण कॉटनऑयलसीड के की मांग स्थिर हो गई है। इसकी कीमतें 2600-2800 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

औद्योगिक खरीदारी में बढ़ोतरी के कारण मंथा तेल की कीमतों में पिछले सप्ताह में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रमुख कारोबारी केंद्रों में बढ़ते आवक दबाव के बीच प्रचुर मात्रा में स्टॉक स्तर के कारण सप्ताह के अंत तक अधिकांश बढ़त समाप्त हो गई। वर्ष 2022 के लिए कम उत्पादन अनुमान के कारण कीमतों को जल्द ही 930-950 के करीब सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश से फसल खराब होने की आशंका से एनसीडीईएक्स पर ग्वारसीड की कीमतों में तेज रिकवरी हुई है। 5290 के साप्ताहिक उच्च स्तर को छूने के बाद सप्ताह के अंत तक कीमतें बढ़त को बरकरार रखने में विफल रही और रकबे में वृद्धि की रिपोर्ट पर कीमतें 5010 के स्तर तक लुढ़क गईं। जुलाई के अंत तक राजस्थान में ग्वारसीड का रकबा 27.8 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो साल-दर-साल 16% अधिक है। पर्याप्त स्टॉक के कारण ग्वारगम की कीमतों में अप्रैल में दर्ज 13385 के उच्च स्तर से 32% की गिरावट हुई है। इसे 8800-8900 के स्तर के करीब सपोर्ट मिल सकता है।

वर्ष 2022 में कम उत्पादन अनुमान के कारण कैस्टरसीड की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन तेल की अंतरराष्ट्रीय मांग, विशेष रूप से चीन से कमजोर मांग के कारण, कीमतों में बढ़ोतरी के 7450-7500 तक सीमित होने की संभावना है। 2022 के पहले पांच महीनों के दौरान अरंडी के तेल के निर्यात में पिछले साल की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है।

सर्पाफा

अमेरिकी डॉलर में तेजी के बीच पूरे सप्ताह सोने की कीमतों में गिरावट हुई और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में आक्रामक वृद्धि की आशंकाओं ने सर्पाफा की मांग प्रभावित हुई। कोमेक्स में सोने की कीमतें एक साल से भी अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर 1680.25 डॉलर पर आ गईं। डॉलर अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले 0.2% बढ़ा, जिससे अन्य मुद्राओं को रखने वाले खरीदारों के लिए सर्पाफा की मांग कम हो गई। यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था यूक्रेन में रूस के युद्ध के प्रभाव से पीड़ित होने के बावजूद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के साथ शामिल हो गया यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नीति निर्धारक रिपोर्ट-उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए कल अपनी बैठक में 11 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में अनुमान से अधिक 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की है। निवेशकों का ध्यान अब अगले सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति बैठक पर है, जहां नीति निर्माताओं से ब्याज दरों में 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद है। सोने की कीमतों में नरमी का रूझान है और जो भी बढ़त देखी जा रही है वे अल्पकालिक हैं। निवेशक सिर्फ यह सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि फंड का मार्गदर्शन दरों पर कैसा होगा। अगर उन्हें अभी भी लगता है कि मुद्रास्फीति एक समस्या है या अभी भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, तो इस सोने की कीमतों में गिरावट होगी। गुरुवार के आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिका में बेरोजगारी के शुरुआती दावे आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए और जुलाई में कारखानों की गतिविधि में गिरावट हुई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नवीनतम संकेत है कि यह अधिक ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के दबाव से धीमी हो रही है। इस सप्ताह सोने में उच्च स्तर से बिकवाली जारी रह सकती है जहां इसे 48900 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 51500 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी में भी बिकवाली हो सकती है और कीमतें 52000-58000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

पिछले सप्ताह की पहले आधे भाग में गिरावट देखने के बाद आपूर्ति की चिंताओं और कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण तेल की कीमतों में उछाल दर्ज की गई, क्योंकि बाजार का ध्यान ओपेक और रूस सहित सहयोगियों की इस सप्ताह होने वाली बैठक पर रही, जिसे लेकर सदस्य देशों के बीच 2020 में उत्पादन में कमी के समझौते को समाप्त करने के लिए सहमति होने की संभावना है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें लगभग 5% की बढ़ोतरी के साथ लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुई है जबकि डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई है। तेल की कीमतें आम तौर पर तब बढ़ती है जब डॉलर कमजोर होता है क्योंकि कमजोर डॉलर अन्य मुद्राओं को रखने वाले खरीदारों के लिए कच्चे तेल को सस्ता बनाता है। 3 अगस्त को ओपेक+ की अगली बैठक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उत्पादकों ने अब अप्रैल 2020, जब कोविड-19 महामारी ने मांग हो गई थी, से आपूर्ति में प्रति दिन रिकॉर्ड 9.7 मिलियन बैरल की कटौती को समाप्त करने पर सहमति जतायी है। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ओपेक+ बैठक को लेकर आशावादी है और कहा कि अतिरिक्त आपूर्ति से बाजार को स्थिर करने में मदद मिलेगी। आने वाले सप्ताह में कीमतों में दोनों तरफ की हलचल जारी रह सकती है और कीमतें 7350-8040 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट हुई क्योंकि नए पूर्वानुमानों ने संकेत दिया कि अगस्त के मध्य में पहले की अपेक्षा मौसम कम गर्म रह सकता है। पिछले हफ्ते गर्मी की लहर के कारण एयर कंडीशनिंग के उपयोग के लिए गैस की मांग में बढ़ोतरी के कारण भंडारण में उम्मीद से कम बढ़ोतरी के बावजूद कीमतों में गिरावट आई। इस सप्ताह में नेचुरल गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और कीमतें 590-685 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जहां हम निकट सपोर्ट पर खरीददारी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के पास बिकवाली कर सकते हैं।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती है क्योंकि बाजार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अधिक प्रोत्साहन और संपत्ति बाजार के लिए समर्थन की उम्मीद कर रहा है जो जुलाई महीने के अंत में चीन की पोलित ब्यूरो बैठक के बाद धातुओं की मांग को मजबूत कर सकता है। लेकिन चीन के निर्यात और संपत्ति बाजार के लंबे समय तक कमजोर रहने से दबाव बना रह सकता है। तेजी से बढ़ती ब्याज दरें, रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और लंबे समय तक ऊर्जा संकट इस विश्वास को जन्म दे रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर है जो धातु की मांग को भी कम कर सकती है। तांबे की कीमतें 620-675 के दायरे में कारोबार कर सकती है। आने वाले महीनों में तांबे की कीमतों में फिर से उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि चीन अर्थव्यवस्था के लिए अधिक बुनियादी ढांचे पर खर्च और अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा कर रहा है। आईसीएसजी के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक तांबा बाजार मई में 5,000 टन के अधिशेष पर पहुंच गया है जो एक महीने पहले 23,000 टन के घाटे में था। एल्युमीनियम की कीमतें 202-222 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चीन के सीमा शुल्क के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 की पहली छमाही में एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पादों का उत्पादन साल-दर-साल 34% बढ़कर 3,509,079 टन हो गया। चीन में उच्च उत्पादन वृद्धि और शेष विश्व में गिरती मांग के परिणामस्वरूप दूसरी छमाही में और विशेष रूप से इस वर्ष की अंतिम तिमाही में वैश्विक बाजार में अधिशेष हो सकता है। जिंक की कीमतें 275-300 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लेड की कीमतें 172-185 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चीन 2014 के बाद पहली बार अप्रैल-जून में रिफाईंड जिंक का शुद्ध निर्यातक बन गया है जबकि साल-दर-साल रिफाईंड लेड का निर्यात 2007 के बाद से सबसे अधिक हो गया है। भौतिक खरीदार लेड और जिंक दोनों के लिए रिकॉर्ड प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं क्योंकि स्मेल्टरों के बंद होने से पश्चिमी देशों में आपूर्ति श्रृंखला में भारी कमी हो गई है।

बुलियन स्पॉट एक्सचेंज... “निवेशकों के लिए एक स्वर्णिम उपहार”

सरकार ने 2020 के बजट में देश में सोने के एक रेगुलेटेड एक्सचेंज की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। 28 सितंबर 2021 को अपनी बोर्ड बैठक में सेबी के लंबे विचार-विमर्श और अनुमोदन के बाद, देश में सोने का पहला स्पॉट एक्सचेंज अब एक वास्तविकता बन गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई, 2022 को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरात की गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया।

विश्व स्वर्ण बाजार में भारत की प्रभावशाली भूमिका को स्थापित करना

भारत विश्व स्तर पर चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहाँ सोने की वार्षिक मांग लगभग 800-900 टन होती है, और वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बावजूद वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों के निर्धारण में भारत की कोई भूमिका नहीं होती है। बुलियन का यह नया स्पॉट एक्सचेंज सोने के लेन-देन में पारदर्शिता लाने और समय के साथ वैश्विक स्तर पर भारत को सोने की कीमतों के निर्धारणकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम करेगा।

कारोबार के लिए उपलब्ध उत्पाद

1. इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर प्रारंभ में 995 शुद्धता वाला 1 किलोग्राम और 999 शुद्धता वाला 100 ग्राम सोने के टी+0 सेटलमेंट (100% अग्रिम मार्जिन) के साथ ट्रेड के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। अग्रिम मार्जिन बाजार में अटकलों को समाप्त करने और जोखिमों को कम करने के लिए है।
2. बाद में, उत्पादों को टी+2 (मार्जिन भुगतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट) के लिए किया जाएगा, जहां ऑर्डर के निष्पादन के दो व्यावसायिक दिनों के बाद फंड का निपटारा होता है।
3. भविष्य में संयुक्त अरब अमीरात के सोने या बड़े बार (12.5 किग्रा) के साथ सोने के लिए एक अलग खंड आईआईबीएक्स पर कारोबार कर सकता है।
4. चांदी के उत्पादों को भी बाद के चरणों में उपलब्ध कराया जाएगा।

एक्सचेंज पर पंजीकृत ज्वैलर्स और वॉल्ट

- जूलरों में 25 करोड़ की कुल संपत्ति वाले और 95% राजस्व वाले जूलर और 5 लाख डॉलर की कुल संपत्ति वाले एनआरआई एक्सचेंज में कारोबार कर सकते हैं, बशर्ते, वे डिलीवरी लेना चाहते हैं।
- वर्तमान में, सोना आयात करने और एक्सचेंज पर कारोबार करने के लिए 56 जूलर पंजीकृत हैं। इसमें मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, आरबीजेड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जावेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सांघी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य शामिल हैं।
- योग्य जूलरों के अलावा, अनिवासी भारतीय और संस्थान भी आईआईबीएक्स के साथ पंजीकरण के बाद एक्सचेंज में भाग ले सकेंगे।
- मध्यम अवधि में, सोने के ईटीएफ जैसी संस्थाओं के भी भाग लेने की उम्मीद है।

एक्सचेंज के दो वॉल्ट ऑपरेटर हैं- सीक्वल ग्लोबल और ब्रिक्स इंडिया- और नियामक एक अन्य वॉल्ट ऑपरेटर को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। नियामक गिफ्ट-आईएफएससी में बुलियन रिफाइनरी की स्थापना को भी मंजूरी देगा। गिफ्ट सिटी में लगभग 125 टन सोने और 1,000 टन चांदी के भंडारण क्षमता की योजना है।

इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से कहा है कि एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में किसी भी इकाई, जिसे आईआईबीएक्स पर कारोबार करने के लिए बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद जारी करने के उद्देश्य से सोना भंडारण करने की अनुमति है, को आईएफएससी में एक इकाई माना जाएगा। इन रसीदों का एक्सचेंज पर डॉलर में कारोबार किया जाएगा। एक्सचेंज पर कारोबार किए गए सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) कहा जाएगा। स्पॉट एक्सचेंज होने के कारण, दिन के अंत में सभी खुले पोजीशन को डिलीवरी के लिए चिह्नित किया जाएगा।

बुलियन स्पॉट एक्सचेंज के लाभ

- यह एक्सचेंज 1990 के दशक में नामांकित बैंकों और एजेंसियों के माध्यम से सोने के आयात के उदारीकरण के बाद से, भारत में पहली बार सोने के आयात के उद्देश्य से आईआईबीएक्स पर योग्य जूलरों की प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति देता है।
- इसलिए आईआईबीएक्स भारत में सोना आयात के लिए एक प्रवेश द्वार होगा, जहां घरेलू खपत के लिए सभी सराफा आयात एक्सचेंज के माध्यम से किए जाएंगे।
- एक्सचेंज बेहतर मूल्य की प्राप्ति के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करेगा, सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ केंद्रीकृत समाशोधन की गारंटी होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी।
- यह उद्योग के बी-2-बी सेगमेंट को पूरा करेगा और पूरे बुलियन तंत्र की मूल्य श्रृंखला के सभी अहम भागीदारों (डिलरों, ज्वैलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं) के लेनदेन को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे बड़े कारोबारियों की भागीदारी भी अधिक होगी।



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आर्काइव/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एलए द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।